



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 26—जुलाई 2, 2010 (आषाढ़ 5, 1932)

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26—JULY 2, 2010 (ASADHA 5, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

## संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 23 फरवरी 2010

सं. ए.-32014/1/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, सं.लो.से.आ. के के. सचि. से संवर्ग तथा अन्य संवर्गों के उन अनुभाग अधिकारियों जिनका उल्लेख क्रम सं. 8, 9, 19, 20 तथा 21 पर किया गया है और जिनकी तदर्थ पदोन्नति विस्तार को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक प्रतिबंधित किया जाना है को छोड़कर निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति की अवधि को दिनांक 01.01.2010 से 30.06.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम सं.	नाम	चयन सूची वर्ष	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4
	(सर्व श्री/श्रीमति)		
1.	जगदीश चंदर-II	1991	
2.	वीणा कानूनगो	1991	

1	2	3	4
3.	ए. के. शर्मा	1991	
4.	अरुण कुमार-II	1992	
5.	एस. के. पुरी	1992	
6.	बी. एस. छोंकर	1992	
7.	वाई. पी. कामरा	1992	
8.	एच. आर. विच्छल	1992	31.05.2010 तक जैसाकि वे 31.05.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
9.	बी. एस. छाबड़ा	1992	30.04.2010 तक जैसाकि वे 31.05.2010 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
10.	रानी कौशिक	1992	
11.	शोभा शर्मा	1992	
12.	सावित्री दुकराल	1992	

1	2	3	4
13.	जी. एस. आजाद	1992	
14.	विजेन्द्र सिंह	1993	
15.	एच. एस. दलाल	1993	
16.	एस. एल. अशोदिया	1993	
17.	मौ. नदीम	1993	
18.	संतोष शर्मा	1993	
19.	बी. रमेश बाबू	1993	31.01.2010 तक चूंकि वे 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
20.	दलीप सिंह	1993	31.01.2010 तक चूंकि वे 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
21.	प्रभा अरोड़ा	1993 (अपराह)	30.04.2010 तक जैसाकि वे 30.04.2010 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
22.	वीना मदान	1993	
23.	एस. के. चड्ढा	1993	
24.	डी. के. कंग	1993	
25.	गुलशन चंद	1993	
26.	पी. के. खन्ना	1993	
27.	जगदीश चन्दर गाबा	1994	
28.	बी. एस. पठानिया	1994	
29.	एस. सी. कालिया	1994	
30.	सुभाष चन्दर	1995	
31.	दिनेश शर्मा	1995	
32.	एस. सी. एस. रावत	1995	
33.	रमेश सिंह	1995	
34.	कल्पना विराट	1995	
35.	टिन्टुस सोरेंग	1995	

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- जब तक कि नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं होते, जो भी पहले हो तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.06.2010 तक होगी।
- तदर्थ पदोन्नति से नियुक्त किए गए अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए

अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल करने अथवा के. सचि. से. के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई अधिकार नहीं होगा।

- तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों वर्गों में से किसी वर्ग में अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं, तो का. एवं प्रशि. विभाग द्वारा उन्हें आर्बिट्रि संबंधित संवर्ग एककों में नियमित अनुभाग अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ऐसे नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. ए.-38013/13/2009-प्रशा.-III--संघ लोक सेवा आयोग के के. सचि.से. संवर्ग के अवर सचिव श्री आर. के. कौल्थर द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 28 फरवरी, 2010 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. ए.-32013/1/2008-प्रशा.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.01.2010 के का.ज्ञा. सं. 5/8/2009सी.एस.-I (यू) के तहत वर्ष 2006 की चयन सूची में शामिल किए जाने तथा के.सचि.से. में ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग संवर्ग के के.सचि.से. के अनुभाग अधिकारी श्री लालटलाना झांगटे (अ.ज.जा.) (सी.एस.एल. सं. 6556) को दिनांक 31 मार्च, 2010 के अपराह से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने के निदेश सहित संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

- श्री लालटलाना झांगटे सतर्कता दृष्टिकोण से निर्बाध हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 30 अप्रैल 2010

सं. ए.-38013/15/2009-प्रशा.-III--संघ लोक सेवा आयोग के के.सचि.से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री बी. एस. छाबड़ा द्वारा सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए.-38013/14/2009-प्रशा.-III--संघ लोक सेवा आयोग के के.सचि.से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्रीमती प्रभा अरोड़ा द्वारा सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 30 अप्रैल, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 मई 2010

सं. ए.-32014/2/2006-प्रशा.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2010-सीएस-I (एस) के तहत वर्ष 2006 के वरिष्ठता कोट के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सं. लो.से.आ. के के. सचि. से. संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उसी संवर्ग के दिनांक 20.04.2010 से आगामी आदेशों तक अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	एस सी एस एल सं.	अभियुक्तियां
	(सर्व श्री/श्रीमति)		
1.	जगदीश चंदर-II	122/91	अनु. अधि.(तदर्थ)
2.	के. सी. शर्मा-I	200/91	30.11.2006 को सेवानिवृत्त हुए।
3.	वीणा कानूनगो	201/91	अनु.अधि.(तदर्थ)
4.	श्रीमति कमलेश सौधी	202/91	सहायक

2. चयन सूची, 2006 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उनकी नियुक्तियां कैलाश चन्दर बनाम भारत संघ द्वारा दायर अदालती मामला सं. 13245-60/2005 जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, श्री सौराव सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला सं. ओ.ए. सं. 1083/2007 तथा एम ए सं. 1171/2007 जोकि के.प्रशा. अधि. दिल्ली में लंबित है, दिल्ली उच्च न्यायालय में सी डब्ल्यू पी सं. 13352/2005, के. प्रशा. अधि. दिल्ली में ओ.ए. सं. 3294/2009 तथा के. प्रशा. अधि. दिल्ली में ओ.ए. सं. 2674/2009 के निर्णय के अधधीन है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 04 जून 2010

सं. ए. 60011/13/09-सू.अधि. अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) में निहित शर्तों के

अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :--

क्रम सं.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	विषय वस्तु	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम
1.	श्री आर. के. गुप्ता अवर सचिव (ए'ई आर एवं से.II) दूरभाष नं. 23381870	परीक्षा सुधार शाखा से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले	डॉ. टी. एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक (प.सू.) दूरभाष नं. 23381383
2.	श्री विनय कुमार कार्मिकीया, संयुक्त सचिव (प. I) दूरभाष नं. 23385374	प. I संबंधित अनुभाग, विशेष प्रकोष्ठ-I, विशेष प्रकोष्ठ-II, सलाहकार प्रकोष्ठ, पैनल एवं डाटा बैंक तथा प्रोग्राम एकक से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले	श्री जसवंत सिंह, उपसचिव (प. I) दूरभाष नं. 23098548

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जून 2010

सं. 11/20/2006-प्रशा. (एफ. एस.)--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र कुमार, को न्यायालयिक विज्ञान, गृह मंत्रालय के अधीन सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, शिमला में उप सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर दिनांक 11.03.2010 से वेतन बैंड पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में स्थानापन्न पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

सी. एन. भट्टाचार्य  
प्रभारी-निदेशक व मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 08 जून 2010

सं. पी. तीन-2/2010-मंत्रालयिक--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली के श्री टी. राघवन, (ईरला सं. 4740) ने वरिष्ठ निजी सचिव का पदभार दिनांक 31.05.2010 (अपराह्न) को त्याग दिया।

रविन्द्र नाथ मिश्र  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 09 जून 2010

सं. ओ.दो. 3474/95-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--सरकारी सेवा से अशक्ल हो जाने के फलस्वरूप डॉ. एस. एस. ब्रैवाल मुख्य चिकित्सा

अधिकारी (ओ.जी.) (ईरला सं. 4074), कम्पोजिट अस्पताल के.रि.पु. बल नई दिल्ली ने दिनांक 11.04.2010 (पूर्वाह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 11.04.2010 (पूर्वाह्न) से निकाले जाते हैं।

टी. चन्द्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 03 जून 2010

विषय : संशोधन जारी करना

सं. ई-38013/2/सीएस/पीएफ/कार्मिक-1/98--महानिदेशक/के.औसुब के साथ सम्बद्ध 6,500--12,000/- रुपये (पूर्व संशोधित) के निजी सचिव के पद एक पद को 7,500--12,000/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव में उन्नयन करने के इस महानिदेशालय की दिनांक 19 फरवरी 2009 की सम संख्यक अधिसूचना सं. (35) के संदर्भ में।

गृह मंत्रालय (पी.एफ.-II) की दिनांक 24.05.2010 की डायरी सं. 35107/सी.आर./10 की सहमति अनुसार उपरोक्त अधिसूचना संशोधित रूप में निम्नलिखित प्रकार से पढ़ी जाए :--

के लिए

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में उन्नयन की तारीख
1.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	दिनांक 21.11.2008 अर्थात् पद के उन्नयन के संबंध में गृह मंत्रालय का पत्र जारी होने की तारीख से

पढ़ें

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में उन्नयन की तारीख
1.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	दिनांक 11.04.2001 अर्थात् कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/4/97 स्थापना (डी) के जारी होने की तारीख से

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार  
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

पटना-800001, दिनांक 24 मई 2010

सं. एल.ए.प्रशा.1/प्रो. स.ले.प.अ.-367--प्रधान महालेखाकार (ले.प.) बिहार, पटना ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित वरीय लेखा परीक्षकों को उनके नाम के आगे लिखित तिथि से अगले आदेश तक इसी शाखा में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर

स्थानापन्न रूप से, वेतन बैंड 2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में दिया है :--

क्र. सं.	नाम	दिनांक
1.	देवेन्द्र कुमार सिन्हा	29.01.2010
2.	संजय कुमार सिंह	29.01.2010

स्मृति  
स्थानीय लेखा परीक्षक

सं. एल.ए.प्रशा.1/प्रो. स.ले.प.अ.-363--प्रधान महालेखाकार (ले.प.) बिहार, पटना ने स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) को उनके नाम के आगे लिखित तिथि से अगले आदेश तक इसी शाखा में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायीकरण, वेतन बैंड 2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में किया है :--

क्र. सं.	नाम	दिनांक
1.	अरुण कुमार	26.05.2009
2.	सुजित कुमार	26.05.2009
3.	चेतना सिंह	04.06.2009
4.	सुनिता कुमारी	28.05.2009
5.	सरिता	26.05.2009
6.	श्वेता कुमारी	26.05.2009
7.	रवि कुमार	04.06.2009

स्मृति  
स्थानीय लेखा परीक्षक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-85, दिनांक 02 जून 2010

सं. पीडी/11/(1)/2010-भर्ती-III/2010/4826--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमति स्नेहा सुभाष पोयरेकर, सहायक को दिनांक 17.03.2010 (पूर्वाह्न) से 14.05.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 8 जून 2010

सं. पीडी/11(2)/2010-भर्ती-III/2010/4948--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री वी. जे. रेड्डियार, सहायक लेखाकार को दिनांक 21.04.2010 (पूर्वाह्न) से 05.05.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(2)/2010-भर्ती-III/2010/4949--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती लाली थोमस, सहायक लेखाकार को दिनांक 11.03.2010 (पूर्वाह्न) से 06.05.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 9 जून 2010

शुद्धि पत्र

सं. पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/एसओ/सी/5001--क्रमांक पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/एसओ/सी/2474 दिनांक मार्च 23, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में। उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 12 में दर्शाये गये श्री संजय कुमार सिंह की पदोन्नति की प्रभावी तिथि को संशोधित कर 01.07.2009 के बदले 06.07.2009 के अनुसार पढ़ा जाए।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 10 जून 2010

सं. पीडी/11(1)/2010-भर्ती-III/2010/5078--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री सुनंद बालचन्द्र मानेरकर, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) को दिनांक 19.04.2010 (पूर्वाह्न) से 24.05.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद)

मुम्बई-400094, दिनांक 7 जून 2010

सं. पऊनिप/प्रशा./जी-101/2328--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्रीमती प्रसन्ना चंद्रशेखर, आशुलिपिक ग्रेड-I, पऊनिप को निजी

सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु दिनांक 14 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-2 : रुपये 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. पऊनिप/प्रशा./जी-104/2329--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्रीमती लता मोहनदास, आशुलिपिक ग्रेड-II, पऊनिप को निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु दिनांक 14 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-2 : रुपये 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. पऊनिप/प्रशा./जी-103/2330--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्रीमती मल्लिका सी. नायर, आशुलिपिक ग्रेड-II, पऊनिप को निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु दिनांक 14 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-2 : रुपये 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. पऊनिप/प्रशा./जी-108/2331--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्रीमती शीला के. मेनन, आशुलिपिक ग्रेड-I, पऊनिप को निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु दिनांक 14 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-2 : रुपये 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. पऊनिप/प्रशा./जी-102/2332--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद श्री नारायणन पेरिंगेत, आशुलिपिक ग्रेड-II, पऊनिप को निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु दिनांक 14 मई, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-2 : रुपये 9,300--34,800/- + रु. 4,200/- (ग्रेड वेतन) में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वी. एम. थॉमस  
प्रशासन अधिकारी-III

## भारी पानी बोर्ड

सुम्हई-400094, दिनांक 31 मई 2010

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-एम/2010/410--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एमडी, हैदराबाद की श्रीमती भानुमती मुर्ती, वरिष्ठ लिपिक (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) को दिनांक 01.04.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र (मणुगूरू) में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्रीमती एम. भानुमती, सहायक लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

श्रीमती एम. भानुमती इस ज्ञापन के जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर मूल नियमावली 22 (1) (ए) (i) के अंतर्गत प्रशासन अधिकारी, भापासं (मणुगूरू) को लिखित रूप में अपने वेतन के निर्धारण हेतु विकल्प दे दें।

के. वी. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जून 2010

सं. ए-32013/4/2009-स्था.-1--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित कनिष्ठ वैमानिक अधिकारियों को, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में, उनकी वैमानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने पर 15,600--39,100/- रु. वेतनमान में तथा 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में 28.05.2010 से 04.11.2010 तक या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्री मनीष गुप्ता
2. श्रीमती सुमन कुजूर

तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता आदि हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। साथ ही, सरकार संबंधित अधिकारियों को कोई कारण बताए या नोटिस आदि दिए बिना उनकी तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

विजय सिंह  
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
कानपुर, दिनांक 8 जून 2010

सं. 560(5)/174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित

कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विध्वंसित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15544	मैसर्स कैलाश मोसर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	33707	मैसर्स रिशीकुल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
3.	03410	मैसर्स लारी पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20117	मैसर्स तपरिया रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड
5.	12308	मैसर्स मोहन एग्रो मिल्स लिमिटेड
6.	32869	मैसर्स रिसेन्ट ओरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15269	मैसर्स किशोर इन्वेस्टमेंट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	05133	मैसर्स के. मेधाकुलान एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15695	मैसर्स सिधलस डायगनोस्टिक्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	35368	मैसर्स सक्सेसवे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	05213	मैसर्स गंगा रीफैक्टरीज प्राईवेट लिमिटेड
12.	20529	मैसर्स महेश कामर्शियल क्रेडिट इण्डिया लिमिटेड
13.	21434	मैसर्स ए टू जेड प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
14.	04882	मैसर्स गोइनका पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड
15.	08356	मैसर्स महालक्ष्मी गैसेज प्राईवेट लिमिटेड
16.	24563	मैसर्स अभिराज कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	06182	मैसर्स प्राईम पॉवर फेडरर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	02333	मैसर्स नोरदन रेडियो एण्ड रेप्रोज़रेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	35256	मैसर्स जनता शीतग्रह प्राईवेट लिमिटेड
20.	31661	मैसर्स ए वी बी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	18834	मैसर्स जे एस मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
कानपुर, दिनांक 8 जून 2010

सं. 560(3)/175--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :—

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	16771	मैसर्स इस आरस इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	25544	मैसर्स वेब साफ्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
3.	32157	मैसर्स अरू टेल प्राईवेट लिमिटेड
4.	26339	मैसर्स याशिर क्रियेशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	24543	मैसर्स विमल आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
6.	28867	मैसर्स साधना शीतग्रह प्राईवेट लिमिटेड
7.	13626	मैसर्स पवनसुत सीमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
8.	28885	मैसर्स बरार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	32296	मैसर्स प्रेम पान प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15929	मैसर्स खुशहाल फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	24698	मैसर्स श्री माता कम्प्यूसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	33369	मैसर्स माइनिकल हार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	29765	मैसर्स एक्जिम पॉवर सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	20002	मैसर्स बन्दना मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	29010	मैसर्स रागमो लेदर्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	32597	मैसर्स बुशहार पू प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	33305	मैसर्स लकवन आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	23137	मैसर्स एल्फा लान्डेक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	30009	मैसर्स भारती ट्रेल्स एण्ड टूर ओपरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	08852	मैसर्स श्री रूपनारायण पैकेजिंग एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	34232	मैसर्स कैरियर क्रशडियर्स इस्टीमेशन प्राईवेट लिमिटेड
22.	35367	मैसर्स हिमग्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	24164	मैसर्स बीएचपी आर्युवेद प्राईवेट लिमिटेड

एम. पी. शाह  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स आईडीयोन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./35463/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आईडीयोन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स भरूच साल्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./35485/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भरूच साल्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स अस्मी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./37999/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अस्मी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स कश्यप ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./35658/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स महालक्ष्मी सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૮ જૂન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./25203/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स महालक्ष्मी सिंघूरियटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स पी एण्ड एम रिसर्च सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./37358/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पी एण्ड एम  
रिसर्च सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न  
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर  
दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स अशली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 8 જૂન 2010

सं. आर.ओ.सी./27436/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्द्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अश्ली  
इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया  
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स पायेंशा एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૮ જુન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./37052/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पायेशा  
एलायंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया  
गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी  
जाएगी।

आर. डी. गप्ता

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स गोलवाला कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૮ જુન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./12558/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोलवाला कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स श्रीओम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./27937/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्रीओम इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गप्ता

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स यश पॉली यार्नस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./38895/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना





दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एवरेस्ट वॉटर सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स केपीटल जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./3164/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केपीटल जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स लिगर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./2960/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लिगर केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शीका इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./9939/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शीका इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कविना फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./26268/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कविना फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एनी-राज ऑरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 8 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./22195/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एनी-राज ऑरगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एमी होलिंडग्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./27453/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमी होलिंडग्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कमला ऐयर टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./24878/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आईटीएनएल रोड डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./56375/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आईटीएनएल रोड डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वेस्टर्न एक्वा लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ જુન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./20548/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेस्टर्न एक्वा लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अगीशी इलेक्ट्रो फर्नीचर्स लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./19684/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अगीशी इलेक्ट्रो फर्नीचर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वरुन माइनिंग कम्पनी लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ જૂન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./22497/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वरुन माइनिंग कम्पनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रूबी मेडिकल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./24977/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रूबी मेडिकल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और**

मैसर्स मारुति स्पन सिल्क लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૪ જાન ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./20665/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मारुति स्पन सिल्क लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

बी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डायमण्ड नगर एसोसिएशन लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./21670/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डायमण्ड नगर एसोसिएशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अपार एनर्जी सेविंग्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./39742/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अपार एनर्जी सेविंग्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स निहान फाइनान्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./25687/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निहान फाइनान्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स दिनेश सिक्क्यूरिटीज लिमिटेड के विषय में  
अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./24191/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिनेश सिक्क्यूरिटीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विधि पेपर्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./19535/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विधि पेपर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स धवन एविएशन लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./26468/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्राइवेट मैसर्स धवन एविएशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स तेजुरे लिजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड के विषय में

अहमदबाद-380013, दिनांक 14 जून 2010

सं. आर.ओ.सी./19585/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तेजुरे लिजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कंपनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स डीआर बीन्यस हैजिन प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 4 जून 2010

सं. 560(3)/एमसीए/जी.सी. शिलांग-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डीआर बीन्यस हैजिन प्रमोशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर पूर्व क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक, दिनांक 7 जून 2010

सं. आरओसी/560(5)/1880--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
01.	15-000851	मैसर्स सीमीली पहाड़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
02.	15-003161	मैसर्स भार्गव फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
03.	15-008436	मैसर्स ओएसिस एयर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
04.	15-008768	मैसर्स नीला माधव कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कंपनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बैंगलूर, दिनांक 10 जून 2010

सं.कं.स./क.र.ब./तस/560(3)/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	49	मैसर्स क्राफ्ट्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	203	मैसर्स कृष्णा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	216	मैसर्स द जनरल मोटर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
4.	224	मैसर्स दोड लेनमोण्डा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	228	मैसर्स वेक्कन कम्पोनेन्ट्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	241	मैसर्स मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिन प्राईवेट लिमिटेड
7.	352	मैसर्स ओमकार्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	358	मैसर्स प्रकाश एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
9.	365	मैसर्स जनरल ट्रांसपोर्टेशन पूल प्राईवेट लिमिटेड
10.	380	मैसर्स द इण्डिया शुगर एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
11.	420	मैसर्स पी. एस. नारायणनंद कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	449	मैसर्स किसन सिल्क इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
13.	467	मैसर्स मैसूर एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
14.	504	मैसर्स लॉस ऑफ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	508	मैसर्स सनराईस इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
16.	531	मैसर्स जय हिन्द टॉकीज़ प्राईवेट लिमिटेड
17.	575	मैसर्स श्री श्रीनिवास मर्चेन्ट्स मोटर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
18.	622	मैसर्स कुदिमा फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	630	मैसर्स विकार सन्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	668	मैसर्स आज़ाद कर्मशियल कार्पोरेशन एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	678	मैसर्स द सोमेश्वरा यूनिन प्राईवेट लिमिटेड
22.	715	मैसर्स टायर ट्रेड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
23.	722	मैसर्स ट्रेडर्स ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
24.	727	मैसर्स सिमरन ड्रग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	53.	1275	मैसर्स वेस्ट कोस्ट एजेंसीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
25.	729	मैसर्स साऊथ इण्डिया फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड	54.	1332	मैसर्स कृषि भारत प्राईवेट लिमिटेड
26.	741	मैसर्स ऑटोमेटिक टेलिफोन एण्ड इलैक्ट्रिकल कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	55.	1404	मैसर्स रामगोपाल ऑक्शन चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	757	मैसर्स यूनाइटेड लैबोरेटरीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	56.	1413	मैसर्स मल्लोपल-कोर सोल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	763	मैसर्स द मैसूर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	1429	मैसर्स मंड्या चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
29.	780	मैसर्स रायलसीमा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	1436	मैसर्स वजहापुट्स ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	792	मैसर्स उदेवार एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	59.	1439	मैसर्स आयरन मर्चेंट्स चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
31.	801	मैसर्स माधवानी इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	1468	मैसर्स श्री मरिकाम्बा इंजीनियरिंग एण्ड वुड वर्क्स मैसूर प्राईवेट लिमिटेड
32.	802	मैसर्स तुंगभद्रा शुगर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	61.	1513	मैसर्स द एफिशिएंट फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	823	मैसर्स द गिरिजा प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	1519	मैसर्स मैसूर क्वार्ट्ज प्राईवेट लिमिटेड
34.	827	मैसर्स यूनिकॉर्न (बैंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड	63.	1524	मैसर्स नंदा पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	953	मैसर्स स्टूडेंट्स बुक डिपो प्राईवेट लिमिटेड	64.	1534	मैसर्स सुंदर चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
36.	966	मैसर्स सोगल फार्म एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	65.	1539	मैसर्स दूधसागर ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
37.	995	मैसर्स कर्नाटक फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	1544	मैसर्स आर. एस. कमर्शियल चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
38.	1000	मैसर्स बेलगाम कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	1566	मैसर्स श्री महादेव कमर्शियल चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
39.	1032	मैसर्स न्यू आटोमोबाईल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	68.	1580	मैसर्स भारत फ्रिज वैनर सेल्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
40.	1052	मैसर्स आशा टाकीज प्राईवेट लिमिटेड	69.	1584	मैसर्स रवि इंदिरा चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
41.	1082	मैसर्स केनरा सप्लाइस प्राईवेट लिमिटेड	70.	1591	मैसर्स भाग्योदय बेनिफिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	1102	मैसर्स इलिमाला टिम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	1614	मैसर्स रामपेन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	1129	मैसर्स कर्नाटक केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	1623	मैसर्स रघुवीर चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
44.	1171	मैसर्स माल्या सोप वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	1631	मैसर्स द महूर चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
45.	1182	मैसर्स नायक एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	74.	1655	मैसर्स विश्व बंधु चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
46.	1212	मैसर्स द रूरल कमर्शियल सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड	75.	1660	मैसर्स बागलकोट चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
47.	1243	मैसर्स द ट्रेड एण्ड जनरल फाईनान्स सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड	76.	1678	मैसर्स कमर्शियल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
48.	1245	मैसर्स यूनाइटेड मर्केटाईल एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड	77.	1696	मैसर्स नागभूषण चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
49.	1257	मैसर्स सलविकेट (बैंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड	78.	1700	मैसर्स रेनुकांबा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
50.	1262	मैसर्स चर्मा ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	1709	मैसर्स सेवन हिल्स चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	1267	मैसर्स विश्वकर्मा ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड	80.	1714	मैसर्स सिंटेरेड ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
52.	1268	मैसर्स विचारवाणी प्राईवेट लिमिटेड			



1	2	3	1	2	3
81.	1719	मैसर्स न्यू इरा ट्रेड एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	2556	मैसर्स मिरस्वत एजेंसीज़ (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
82.	1726	मैसर्स तुलसी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	2605	मैसर्स एलेस वाल्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	1760	मैसर्स जयकुमार इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	111.	2606	मैसर्स लक्ष्मीस टेक्नीकल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	1782	मैसर्स श्री बनशंकरी फार्मिंग एण्ड इण्डस्ट्रीयल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	112.	2609	मैसर्स ऊषा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
85.	1783	मैसर्स वीनस प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	2614	मैसर्स कारवान मेटल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
86.	1873	मैसर्स अन्नमाला कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	2634	मैसर्स नायक प्लास्टिक्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
87.	2042	मैसर्स पर्लसेक प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	115.	2638	मैसर्स प्रिंसन प्राईवेट लिमिटेड
88.	2058	मैसर्स कलातुर चिट फण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	116.	2646	मैसर्स एम. पी. इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
89.	2066	मैसर्स बलदेव स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	2649	मैसर्स शांतला स्टील इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
90.	2083	मैसर्स होटल कावेरी प्राईवेट लिमिटेड	118.	2663	मैसर्स सन फर्टिलाइज़र मिक्सर इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
91.	2140	मैसर्स टेको क्राफ्ट्स एलॉयड इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	119.	2671	मैसर्स समता फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
92.	2219	मैसर्स गामा ड्रम्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	2674	मैसर्स समारियास फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
93.	2238	मैसर्स बंगारपेट चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	2683	मैसर्स मेंगलोर फार्मास्यूटिकल्स एण्ड फाईटो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	2275	मैसर्स केमिकल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	122.	2690	मैसर्स लोकमान्य ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
95.	2291	मैसर्स बैंगलोर डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	123.	2704	मैसर्स श्री श्रीनिवास चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
96.	2323	मैसर्स परफ्यूमरी इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	124.	2728	मैसर्स एस.आर.एस. चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	2326	मैसर्स श्री मारुति मार्किंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	125.	2735	मैसर्स बी.डी.एस. इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	2327	मैसर्स शिवकुमार मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	126.	2739	मैसर्स हिल्स एण्ड मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	2394	मैसर्स मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	127.	2757	मैसर्स प्रिंटोग्रॉफ प्राईवेट लिमिटेड
100.	2410	मैसर्स अमताहेर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	2779	मैसर्स श्रीनगर फाईनांस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
101.	2441	मैसर्स देवेन्द्र चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	129.	2784	मैसर्स बी. आर. इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	2480	मैसर्स पॉवर पेक बैटरीज़ एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	2819	मैसर्स ब्रेन क्विज़ प्राईवेट लिमिटेड
103.	2482	मैसर्स ब्रेवेटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	131.	2832	मैसर्स टेलि डायल्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	2511	मैसर्स सन्मान चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	132.	2843	मैसर्स कमलानी वेन फूड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
105.	2534	मैसर्स कर्नाटक लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	133.	2844	मैसर्स होम रिपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	2535	मैसर्स कर्नाटक कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	2845	मैसर्स हरीश प्लास्टिक्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
107.	2547	मैसर्स मुमताज चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	2853	मैसर्स पी-वी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
108.	2555	मैसर्स कर्नाटक फर्टिलाइज़र कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	136.	2861	मैसर्स पायोनियर एड्स प्राईवेट लिमिटेड
			137.	2898	मैसर्स विजय फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
138.	2904	मैसर्स श्री जयंती चिट फण्डज़ प्राईवेट लिमिटेड
139.	2907	मैसर्स टेलेक्स मीटर प्राईवेट लिमिटेड
140.	2914	मैसर्स बेंगलोर ऑफिसिस कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
141.	2917	मैसर्स डेक्कन रिकार्डज़ प्राईवेट लिमिटेड
142.	2946	मैसर्स डेकन अपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	2956	मैसर्स रेन्डब इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	2967	मैसर्स सावन इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	2999	मैसर्स वसंता ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
146.	3000	मैसर्स स्पलंक एग्रो एण्ड एलॉयड एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
147.	3009	मैसर्स स्कंद स्विच गियर्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	3050	मैसर्स अंकलापरमेश्वरी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
149.	3051	मैसर्स श्रीवारी चिट फण्डज़ प्राईवेट लिमिटेड
150.	3117	मैसर्स ताज ट्रेडिंग एण्ड चिट फण्डज़ प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
कर्नाटक

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 23rd February 2010

No. A-32014/1/2009-Admn.-III—The President is pleased to extend the period of ad hoc promotion of the following Assistants of the CSS cadre of Union Public Service Commission as Section Officers with effect from 01.01.2010 to 30.06.2010 or until further orders whichever is earlier except S. Nos. 8, 9, 19, 20 & 21 whose extension of ad hoc promotion as Section Officers is restricted to the period mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Select List Year	Remarks
1	2	3	4
(S/Shri)			
1.	Jagdish Chander-II	1991	
2.	Smt. Veena Qanungo	1991	
3.	A. K. Sharma	1991	
4.	Arun Kumar-II	1992	
5.	S. K. Puri	1992	
6.	B. S. Chhonker	1992	
7.	Y. P. Kamra	1992	
8.	H. R. Bichhal	1992	Upto 31.05.2010 as he is retiring on 31.5.2010 (AN)
9.	B. S. Chhabra	1992	Upto 30.04.2010 as he is retiring on 30.04.2010 (AN)
10.	Smt. Rani Kaushik	1992	
11.	Smt. Shobha Sharma	1992	
12.	Smt. Savitri Thukral	1992	
13.	G. S. Azad	1992	
14.	Bijender Singh	1993	
15.	H. S. Dalal	1993	
16.	S. L. Ashodhiya	1993	
17.	Md. Nadeem	1993	
18.	Smt. Santosh Sharma	1993	
19.	V. Ramesh Babu	1993	Upto 31.1.2010 (Since retired on 31.1.2010)
20.	Dalip Singh	1993	Upto 31.1.2010 (Since retired on 31.1.2010)
21.	Smt. Prabha Arora	1993	Upto 30.04.2010 as she is retiring on 30.04.2010 (AN)
22.	Smt. Veena Madan	1993	
23.	S. K. Chadha	1993	
24.	Smt. D. K. Kang	1993	
25.	Gulshan Chand	1993	

1	2	3	4
(S/Shri)			
26.	P. K. Khanna	1993	
27.	Jagdish Chander Gaba	1994	
28.	B. S. Pathania	1994	
29.	S. C. Kalia	1994	
30.	Subhash Chander	1995	
31.	Dinesh Sharma	1995	
32.	S. C. S. Rawat	1995	
33.	Ramesh Singh	1995	
34.	Smt. Kalpana Virat	1995	
35.	Tintus Soreng	1995	

2. The Promotion of above Assistants as Section Officers on ad hoc basis will be subject to the following conditions :—

- The period of ad hoc promotion would be upto 30.06.2010 till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- Ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by DOP&T.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 26 February 2010

No. A-38013/13/2009-Admn.-III—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. K. Kauldhar, Under Secretary of the CSS of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 28th February, 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 31st March 2010

No. A-32013/1/2008-Admn.-III—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2006 and promotion to Grade-I (Under Secretary) in the Central Secretariat Service

vide Department of Personnel & Training's O.M.No.5/8/2009-C.S.-I (U) K. dated 08.01.2010, Shri Lalitana Chhangte (ST)(CSL No. 6556), Section Officer of the CSS cadre of UPSC stands relieved of his duties in the office of Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 31st March, 2010 with direction to report to the Ministry of Home Affairs.

2. Shri Lalitana Chhangte, Section Officer is clear from vigilance angle.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 30th April 2010

No. A-38013/15/2009-Admn.-III—Consequent upon the age of superannuation, Shri B. S. Chhabra, Section Officer in the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 30th April, 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-38013/14/2009-Admn.-III—Consequent upon the age of superannuation, Smt. Prabha Arora, Section Officer in the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 30 April, 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 7th May 2010

No. A-32014/2/2006-Admn.-III—Consequent upon their inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2006 against seniority quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No.6/1/2010-C-I (S) dated 25th February, 2010, the President is pleased to appoint the following regular Assistants in the CSS cadre of Union Public Service Commission as Section Officers in the same cadre with effect from 20.04.2010 until further orders :—

S. No.	Name	SCSL No.	Ramarks
	(S/Shri)		
1.	Jagdish Chander-II	122/91	S.O. (Ad hoc)
2.	K. C. Sharma-I	200/91	Retired on 30.11.2006
3.	Smt. Veena Qanungo	201/91	S.O. (Ad hoc)
4.	Smt. Kamlesh Sondhi	202/91	Assistant

2. Their appointments in the Section Officers' Grade against the Select List-2006 are subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filled by Kailash Chander Vs UOI

pending in High Court, Delhi, Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT Delhi, CWP No. 13352/2005, in the High Court of Delhi, OA No. 3294/2009 in CAT, Delhi and OA No. 2674/2009 in CAT, Delhi.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 4th June 2010

No.-A 60011/13/2009-RTI Cell (Admn.)—In terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following Officers of the UPSC are hereby designated as Appellate Authorities in respect of the specific subject matter mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Appellate Authority	Subject matter	Name of the CPIO
1.	Shri R. K. Gupta, Addl. Secy., (AER&S-II) Tele No. 23381870	All RTI Related matters pertaining to ER Branch	Dr. T. S. Reddy JD(ER) Tele No. 23381383
2.	Shri Vinai Kumar Kanaujia, JS(R-I) Tele No. 23385374	All RTI matters pertaining to R-I, Scrutiny Section, SPC-I, SPC-II, Advisor Cell, P&D Bank and Prog. Unit.	Sh. Jaswant Singh, DS(R-I) Tele No. 23098548

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE)

New Delhi-110003, the 11th June 2010

No. 11/20/2006-Admn. (FS)—The President is pleased to appoint Shri Narender Kumar as Deputy Government Examiner of Questioned Documents in the office of Government Examiner of Questioned Documents, Shimla under the Directorate of Forensic Science, Ministry of Home Affairs on officiating promotion with effect from 11.03.2010 in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-.

C. N. BHATTACHARYYA  
I/C Director-cum-Chief Forensic Scientist

#### DIRECTORATE GENERAL CRPF

New Delhi-110003, the 8th June 2010

No. P.III-2/2010-Min—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation, Shri T. Raghavan, (IRLA-4740) of Directorate General, CRPF, New Delhi has relinquished charge of the post of Senior Private Secretary in the Afternoon of 31.05.2010.

R. N. MISHRA  
DIG (Organisation)

New Delhi-110003, the 9th June 2010

No.O.II.3474/95-Pers.MOs—Consequent on invalidation from service, Dr. S. S. Grewal, CMO(OG) (IRLA-4074) of Composite Hospital, CRPF, New Delhi, relinquished the charge of his post on the forenoon of 11.4.2010. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 11.4.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIGP (Pers)

**DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-110003, the 3rd June 2010

Subject : Issue of Amendment

No. E-38013(2)/CS/2008-PF/Pers/I/98—Reference this Directorate Notification of even No. (35) dated 19th January, 2009, regarding up-gradation of one post of Private Secretary attached to DG/CISF in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/- (pre-revised) to that of Senior Private Secretary in pay scale of Rs. 7,500—12,000/-

With the concurrence of MHA (PF.II) vide their Dy. No. 35107/CR/10 dated 24.05.2010, the above referred Notification may be amended to read as under:-

For

Sl. No.	Name of the Officer	Date of upgradation as Senior Private Secretary
1.	Shri Ramesh Chander Sharma	21.11.2008 i.e. the date of issue of MHA's letter regarding up-gradation of the post

Read

Sl. No.	Name of the Officer	Date of upgradation as Senior Private Secretary
1.	Shri Ramesh Chander Sharma	11.04.2001 i.e. the date of issue of DoP & T's OM No. 35034/4/97-Estt(D).

SD/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(AUDIT), BIHAR**

**LOCAL AUDIT WING**

Patna-800001, the 24th May 2010

No. L. A. Admn-I-Promo-AAO-33-365—The Principal Accountant General (Audit), Bihar, Patna, has been pleased to Promote the following Sr. Auditors as regular Assistant

Audit Officer in the same wing in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 29.01.2010:—

S. No.	Name
1.	Shri Devendra Kumar Sinha
2.	Shri Sanjay Kumar Singh

SMRITI  
Examiner of Local Accounts

No. L. A. Admn-I-Promo-AAO(P)'s-34-361—The Principal Accountant General (Audit), Bihar, Patna, has been pleased to confirm the following Assistant Audit Officers as regular Assistant Audit Officer in the same wing w.e.f the date mentioned with their names in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 4,800/- :—

S. No.	Name	Date
	(Shri/Miss)	
1.	Arun Kumar	26.05.2009
2.	Sujit Kumar	26.05.2009
3.	Chetna Singh	04.06.2009
4.	Sunita Kumari	28.05.2009
5.	Sarita	26.05.2009
6.	Shweta Kumari	26.05.2009
7.	Ravi Kumar	04.06.2009

SMRITI  
Examiner of Local Accounts

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-85, the 2nd June 2010

No. PD/11(1)2010-R.III/2010/4826—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Sneha Subhash Poyarekar, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 17.03.2010 (FN) to 14.05.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 8th June 2010

Ref : PD/11(2)2010-R-III/2010/4948—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. J. Reddiar, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 21.04.2010 (FN) to 05.05.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Ref: PD/11(2)/2010-R-III/2010/4949—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Laly Thomas, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 11.03.2010 (FN) to 06.05.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 9th June 2010

#### CORRIGENDUM

Ref: PD/7(17)/2009-R-IV/SO/C/5001:—Reference Notification No. PD/7(17)/2009-R-IV/SO/C/2474 dated March 23, 2010. The effective date of promotion of Shri Sanjay Kumar Singh shown at Sr. No. 12 of the above mentioned Gazette Notification may be corrected to read as “06.07.2009” instead of “01.07.2009”.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 10th June 2010

Ref: PD/11(1)/2010-R-III/2010/5078—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sunand Balchandra Manerkar, ASO (B) as Security Officer, in this Research Centre on ad-hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 19.04.2010 (FN) to 24.05.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD)

Mumbai-400 094, the 7th June 2010

No. AERB/Adm/G-101/2328—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Prasanna Chandrasekhar, Stenographer Grade-I, A.E.R.B. to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 14th May, 2010 until further orders.

V. M. THOMAS  
Administrative Officer-III

No. AERB/Adm/G-104/2329—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Latha Mohandas, Stenographer Grade-II, A.E.R.B. to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 14th May, 2010 until further orders.

V. M. THOMAS  
Administrative Officer-III

No. AERB/Adm/G/103/2330—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Mallika C. Nair, Stenographer Grade-II, A.E.R.B. to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 14th May, 2010 until further orders.

V. M. THOMAS  
Administrative Officer-III

No. AERB/Adm/G-108/2331—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Sheela K. Menon, Stenographer Grade-I, A.E.R.B. to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 14th May, 2010 until further orders.

V. M. THOMAS  
Administrative Officer-III

No. AERB/Adm/G-102/2332—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri Narayanan Peringeth, Stenographer Grade-II, A.E.R.B. to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 14th May, 2010 until further orders.

V. M. THOMAS  
Administrative Officer-III

#### HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 31st May 2010

Ref: HWB/R/1(16)-M/2010/410—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Bhanumathi Murthy, Senior Clerk, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay Rs. 4,200/- AMD, Hyderabad to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 01st April, 2010 until further orders.

K. V. PILLAI  
Administrative Officer-III

#### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 4th June 2010

No. A. 32013/4/2009-E.I.—The President is pleased to appoint the following Junior Aeronautical Officer in the office of Director General of Civil Aviation, on their promotion to the post of Aeronautical Officer in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- on ad hoc

basis with effect from 28.05.2010 till 04.11.2010 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

1. Shri Manish Gupta
2. Smt. Suman Kujur

The ad-hoc appointment will not confer on them any right for regular promotion or for seniority etc. Further, the Government reserves the right to terminate their ad-hoc appointment without assigning any reason or giving any notice etc. to the officers concerned.

VIJAY SINGH  
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kanpur-208001, the 8th June 2010

No. 560(5)/174—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off the Register of Companies from the date of this publication, these companies shall stand dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	015544	M/s. Kailash Moser Industries Private Limited
2.	033707	M/s. Rishikool Infotech Private Limited
3.	003410	M/s. Lawrie Packagings Private Limited
4.	020117	M/s. Taparia Roller Flour Mills Limited
5.	012308	M/s. Mohan Agro Mills Limited
6.	032869	M/s. Recent Organics Private Limited
7.	015269	M/s. Kishore Investment Consultants Private Limited
8.	005133	M/s. K. Methaqualone and Chemicals Private Limited
9.	015695	M/s. Singhals Diagonstics and Leasing Private Limited
10.	035368	M/s. Successway Marketing Private Limited
11.	005213	M/s. Ganga Refractories Private Limited
12.	020529	M/s. Mahesh Commercial Credit India Limited
13.	021434	M/s. A to Z Plastic Private Limited
14.	004882	M/s. Goenka Poly Pack Private Limited

1	2	3
15.	008356	M/s. Mahalaxmi Gases Private Limited
16.	024563	M/s. Abhiraj Computers Private Limited
17.	006182	M/s. Prime Power Feeders Private Limited
18.	002333	M/s. Northern Radio and Refrigeration Company Private Limited
19.	035256	M/s. Janta Sheet Grah Private Limited
20.	031661	M/s. AVVB Enterprises Private Limited
21.	018834	M/s. J. S. Metals Private Limited

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kanpur-208001, the 8th June 2010

No. 560(3)/175—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	016771	M/s. Ess Aars Investment and Financial Services Private Limited
2.	025544	M/s. Wave Soft Services Private Limited
3.	032157	M/s. Aru Tel Private Limited
4.	026339	M/s. Yasir Creation Private Limited
5.	024543	M/s. Bimla Ice and Cold Storage Private Limited
6.	028867	M/s. Sadhna Sheetgrah Private Limited
7.	013626	M/s. Pawansut Cement Company Private Limited
8.	028885	M/s. Barar Transport Company Private Limited
9.	032296	M/s. Pream Pan Products Private Limited
10.	015929	M/s. Khushhal Fibres Private Limited
11.	024698	M/s. Sri Mata Compusys Private Limited
12.	033369	M/s. Myncil Herbals Private Limited
13.	029765	M/s. Axiom Power Solutions Private Limited

1	2	3
14.	020002	M/s. Vandana Motors Private Limited
15.	029010	M/s. Ragmo Leathers Private Limited
16.	032597	M/s. Bushra PU Products Private Limited
17.	033305	M/s. Lakvan Outsourcing Private Limited
18.	023137	M/s. Alfa Laundrex Private Limited
19.	030009	M/s. Bharti Travels and Tour Operators Private Limited
20.	008852	M/s. Shri Roopnarain Packaging and Chemicals Private Limited
21.	034232	M/s. Career Crusaders Institution Private Limited
22.	035367	M/s. Himgiri Fertilizers & Chemicals Private Limited
23.	024164	M/s. BHP Ayurvedic Private Limited

M. P. SHAH  
Registrar of Companies  
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ideon Technology Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00132/6577—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ideon Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bharuch Salt Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00135/6600—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bharuch Salt Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asmi Marbles Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00138/6603—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Asmi Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kashyap Jewellers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00146/6606—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kashyap Jewellers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mahalaxmi Securities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00148/6609—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mahalaxmi Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P and M Research Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00157/6612—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of



M/s. P and M Research Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashlee Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00159/6615—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashlee Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Payesha Alloys Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00164/6618—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Payesha Alloys Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Golwala Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00169/6621—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Golwala Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shriom Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00171/6624—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shriom Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yash Poly-Yarns Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00172/6627—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yash Poly-Yarns Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tirth Management Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00173/6630—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tirth Management Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. Nanchand Trade Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00174/6633—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. C. Nanchand Trade Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Citiwide Gas Network Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00175/6636—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Citiwide Gas Network Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glorious Export Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00177/6639—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Glorious Export Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Macrocosm Apparels Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00179/6642—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Macrocosm Apparels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dadheech Polyplast Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00180/6645—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dadheech Polyplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Everest Water Solution Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00181/6648—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Everest Water Solution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Capital Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00184/6651—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Capital Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Liger Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00182/6654—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Liger Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Shika Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00186/6657—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shika Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA  
Dy. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kaveena Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00360/6660—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kaveena Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Anee-Raj Organics Private Limited

Ahmedabad-380013, the 8th June 2010

No. u/s. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00347/6663—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anee-Raj Organics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Amee Holdings Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/27453/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amee Holdings Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kamala Air Tech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7216/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kamala Air Tech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Blue Star Mining Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7210/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Blue Star Mining Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Rajmani Dyechem Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7213/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajmani Dyechem Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Orient Smelters Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7207/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orient Smelters Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ITNL Expressway Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7222/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ITNL Expressway Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kenfin Stock Building Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7204/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kenfin Stock Building Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. SMA Chains Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7223/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SMA Chains Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sentinel Infrastructure Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7202/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sentinel Infrastructure Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Prime Avenues and Credit Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7225/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prime Avenues and Credit Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ITNL Road Infrastructure Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7219/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ITNL Road Infrastructure Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Aditya Finvest Services Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7195/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aditya Finvest Services Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Western Oil and Gas Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7189/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western Oil and Gas Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Intra Oils and Grains Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7180/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Intra Oils and Grains Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Ruby Mining Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7192/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ruby Mining Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ITNL Road Development Company Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7177/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ITNL Road Development Company Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Ashish Share Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7183/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashish Share Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Agishi Electro Furnitures Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7246/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Agishi Electro Furnitures Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Jeff Shipping Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7186/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jeff Shipping Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Ruby Medical Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7243/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ruby Medical Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Diamond Nagar Association Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7240/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Diamond Nagar Association Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Western Aqua Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7237/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Western Aqua Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Varun Mining Company Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7234/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Varun Mining Company Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Maruti Spun Silk Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7231/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maruti Spun Silk Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Apar Energy Savings Company Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7276/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apar Energy Savings Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Alpha Converting Machines Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7273/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alpha Converting Machines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Varuna Capital Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7270/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Varuna Capital Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Zen Metals and Exports Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7267/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zen Metals and Exports Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Success Education Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7264/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Success Education Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Nihan Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7261/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nihan Finance Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dinesh Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7258/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dinesh Securities Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Vidhi Papers Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7255/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidhi Papers Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dhawan Aviation Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7252/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhawan Aviation Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Tejura Leasing and Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 14th June 2010

No. RoC/7249/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tejura Leasing and Finance Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dr. Binoy S Hygiene Promotion Private Limited

Shillong-793001, the 4th June 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00430/534—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dr. Binoy S Hygiene Promotion Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland,  
Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Cuttack-753001, the 7th June 2010

No. RoC/Sec. 560(5)/1880—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have

this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-000851	M/s. Similipahar Forest Development Corporation Limited
2.	15-003161	M/s. Bhargav Pharmaceuticals Private Limited
3.	15-008436	M/s. Oasis Air Products Private Limited
4.	15-008768	M/s. Nilamadhab Consultancy Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and  
of the following Companies

Bangalore, the 10th June 2010

No. RoCB/TA/AHN560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	49	M/s. Krafts Investments Private Limited
2.	203	M/s. Krishna and Company Private Limited
3.	216	M/s. The General Motor Services Private Limited
4.	224	M/s. Dodd Lanmonda Estates Private Limited
5.	228	M/s. Vacuun Components and Instruments Private Limited
6.	241	M/s. Motor Transport Union Private Limited
7.	352	M/s. Omkars Private Limited
8.	358	M/s. Prakash Agencies Private Limited
9.	365	M/s. General Transportation Pool Private Limited
10.	380	M/s. The India Sugar Agencies Private Limited
11.	420	M/s. P. S. Narayanand Company Private Limited

1	2	3
12.	449	M/s. Kisan Silk Industries Private Limited
13.	467	M/s. Mysore Agencies Private Limited
14.	504	M/s. Laws of India Private Limited
15.	508	M/s. Sunrise Industries Private Limited
16.	531	M/s. Jai Hind Talkies Private Limited
17.	575	M/s. Sri Srinivasa Merchants Motor Services Private Limited
18.	622	M/s. Kudima Fastners Private Limited
19.	630	M/s. Vikar Sons Private Limited
20.	668	M/s. Azad Commercial Corporation and Chit Fund Company Private Limited
21.	678	M/s. The Someswara Union Private Limited
22.	715	M/s. Tyre Treads India Private Limited
23.	722	M/s. Traders Trust Private Limited
24.	727	M/s. Simran Drug Company Private Limited
25.	729	M/s. South India Films Private Limited
26.	741	M/s. Automatic Telephone and Electrical Co. (India) Private Limited
27.	757	M/s. United Laboratories (India) Private Limited
28.	763	M/s. The Mysore Farms Private Limited
29.	780	M/s. Rayalaseema Minerals Private Limited
30.	792	M/s. Udevar Estate Private Limited
31.	801	M/s. Madhvani Industrial Investments Private Limited
32.	802	M/s. Thungabhadra Sugar Works Private Limited
33.	823	M/s. The Girija Productions Private Limited
34.	827	M/s. Unicorn (Bangalore) Private Limited
35.	953	M/s. Students Book Depot Private Limited
36.	966	M/s. Sogal Farm and Industries Private Limited
37.	995	M/s. Karnatak Farms Private Limited
38.	1000	M/s. Belgaum Construction Works Private Limited
39.	1032	M/s. New Automobile Engineering Company Private Limited
40.	1052	M/s. Asha Talkies Private Limited
41.	1082	M/s. Canara Supplies Private Limited
42.	1102	M/s. Elimala Timbers Private Limited



1	2	3	1	2	3
43.	1129	M/s. Karnataka Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited	71.	1614	M/s. Rampen's Private Limited
44.	1171	M/s. Malliya Soap Works Private Limited	72.	1623	M/s. Raghuveer Chit Fund Company Private Limited
45.	1182	M/s. Nayak and Company Private Limited	73.	1631	M/s. The Maddur Chit Fund Company Private Limited
46.	1212	M/s. The Rural Commercial Syndicate Private Limited	74.	1655	M/s. Vishwa Bhando Chit Fund Private Limited
47.	1243	M/s. The Trade and General Finance Syndicate Private Limited	75.	1660	M/s. Bagalkot Chit Fund Private Limited
48.	1245	M/s. United Mercantile Agencies Private Limited	76.	1678	M/s. Commercial Chit Funds Private Limited
49.	1257	M/s. Salvicate (Bangalore) Private Limited	77.	1696	M/s. Nagabushana Chit Fund Co. Private Limited
50.	1262	M/s. Verma Brothers Private Limited	78.	1700	M/s. Renukamaba Chit Fund Private Limited
51.	1267	M/s. Viswakarma Jewellery Private Limited	79.	1709	M/s. Seven Hills Chit Funds Private Limited
52.	1268	M/s. Vicharavani Private Limited	80.	1714	M/s. Sintered Glass Private Limited
53.	1275	M/s. West Coast Agencies (India) Private Limited	81.	1719	M/s. New Era Trade and Travels Private Limited
54.	1332	M/s. Krishi Bharat Private Limited	82.	1726	M/s. Thulasi Chit Funds Private Limited
55.	1404	M/s. Ramgopal Auction Chit Funds Private Limited	83.	1760	M/s. Jayakumar Engineering Private Limited
56.	1413	M/s. Multiple-Core Solders Private Limited	84.	1782	M/s. Shri Banashankari Farming and Industrial Co. Private Limited
57.	1429	M/s. Mandya Chit Fund Private Limited	85.	1783	M/s. Venus Printers and Publishers Private Limited
58.	1436	M/s. Vazahaputt's Trading and Chit Funds Private Limited	86.	1873	M/s. Annmala Cotton Mills Private Limited
59.	1439	M/s. Iron Merchants' Chit Fund Private Limited	87.	2042	M/s. Pirlsack Plastics Private Limited
60.	1468	M/s. Shri Marikamba Engineering and Wood Works Mysore Private Limited	88.	2058	M/s. Kalathur Chit Fund and Trading Co. Private Limited
61.	1513	M/s. The Efficient Financiers Private Limited	89.	2066	M/s. Baldev Steels Private Limited
62.	1519	M/s. Mysore Quartz Private Limited	90.	2083	M/s. Hotel Kaveri Private Limited
63.	1524	M/s. Nanda Publishers Private Limited	91.	2140	M/s. Techno Crafts Allied Industries Private Limited
64.	1534	M/s. Sunder Chit Fund Private Limited	92.	2219	M/s. Gamma Drugs Private Limited
65.	1539	M/s. Dudhasagar Transport Private Limited	93.	2238	M/s. Bangarpet Chit Funds Private Limited
66.	1544	M/s. R. S. Commercial Chit Fund Company Private Limited	94.	2275	M/s. May Chemical Industries Private Limited
67.	1566	M/s. Sree Mahadev Commercial Chit Fund Company Private Limited	95.	2291	M/s. Bangalore Distributing Company Private Limited
68.	1580	M/s. Bharat Fritz Weiner Sales Services Private Limited	96.	2323	M/s. Perfumery Industries Private Limited
69.	1584	M/s. Ravi Indira Chit Fund Company Private Limited	97.	2326	M/s. Sri Maruthi Mining Company Private Limited
70.	1591	M/s. Bhagyodaya Benefit Funds Private Limited	98.	2327	M/s. Shivkumar Marketing Company Private Limited

1	2	3	1	2	3
99.	2394	M/s. Marketing and Management Services Private Limited	124.	2728	M/s. S. R. S. Chit Funds Private Limited
100.	2410	M/s. Amtaher Exports Private Limited	125.	2735	M/s. B. D. S. Electronics Private Limited
101.	2441	M/s. Devendra Chit Fund Co. Private Limited	126.	2739	M/s. Hills and Marine Products Exports Private Limited
102.	2480	M/s. Power Pack Batteries and Electronics Private Limited	127.	2757	M/s. Printograph Private Limited
103.	2482	M/s. Bravetti Distributing Company Private Limited	128.	2779	M/s. Srinagar Finance and Trading Company Private Limited
104.	2511	M/s. Sanman Chit and Trading Co. Private Limited	129.	2784	M/s. V. R Electronics Private Limited
105.	2534	M/s. Karnataka Leaf Tobacco Development Co. Private Limited	130.	2819	M/s. Brain Quiz Private Limited
106.	2535	M/s. Karnataka Containers Private Limited	131.	2832	M/s. Tele Dials Private Limited
107.	2547	M/s. Mumtaz Chit Funds Private Limited	132.	2843	M/s. Kamalami Van Food Craft Private Limited
108.	2555	M/s. Karnataka Fertilizer Company Private Limited	133.	2844	M/s. Home Repairs Private Limited
109.	2556	M/s. Mirswat Agencies (India) Private Limited	134.	2845	M/s. Harish Plastics Industries Private Limited
110.	2605	M/s. Alles Valves Private Limited	135.	2853	M/s. Pee-Vee Exports Imports (India) Private Limited
111.	2606	M/s. Lakshmish Technical Consultants Private Limited	136.	2861	M/s. Pioneer Aids Private Limited
112.	2609	M/s. Usha Chit Fund Private Limited	137.	2898	M/s. Vijay Forgings Private Limited
113.	2614	M/s. Caravan Metal Industries Private Limited	138.	2904	M/s. Sree Jayanthi Chit Funds Private Limited
114.	2634	M/s. Naik Plastics Industries Private Limited	139.	2907	M/s. Talex Meters Private Limited
115.	2638	M/s. Prinson Private Limited	140.	2914	M/s. Bangalore Offices Construction Private Limited
116.	2646	M/s. M. P. Investment Co. Private Limited	141.	2917	M/s. Deccan Records Private Limited
117.	2649	M/s. Shanthala Steel Industries Private Limited	142.	2946	M/s. Decan Apparels Private Limited
118.	2663	M/s. Sun Fertilizer Mixture Industries Private Limited	143.	2956	M/s. Randb Electronics Private Limited
119.	2671	M/s. Samatha Films Private Limited	144.	2967	M/s. Savan Electricals Private Limited
120.	2674	M/s. Samarias Films Private Limited	145.	2999	M/s. Vasantha Trading and Chit Fund Private Limited
121.	2683	M/s. Mangalore Pharmaceuticals and Phyto Chemicals Private Limited	146.	3000	M/s. Splank Agro and Allied Agencies Private Limited
122.	2690	M/s. Lokmanya Tdg and Chit Fund Company Private Limited	147.	3009	M/s. Skanda Switchgears Private Limited
123.	2704	M/s. Sri Sreenivasa Chit Fund Private Limited	148.	3050	M/s. Ankalaparameshwari Chit Fund Private Limited
			149.	3051	M/s. Srivari Chit Funds Private Limited
			150.	3117	M/s. Taj Trading and Chit Funds Private Limited

GEETHA MAHALAKSHMI  
Asstt. Registrar of Companies  
Karnataka